

प्रेस नोट दिनांक-02.03.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 30 लीटर कच्ची व 12 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गयी।

(क). उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता 1. लीला पत्नी कल्लू निषाद निवासी कुली तलैया थाना कर्वी चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची तथा अभियुक्ता लक्ष्मनिया पत्नी रामचन्द्र निवासी मछली मण्डी भैरोंपागा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी शैलेन्द्र कुमार
3. आरक्षी आशीष कुमार

(ख). उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जमुना प्रसाद जायसवाल पुत्र मुन्नू लाल निवासी सराय तलैया थाना राजापुर चित्रकूट को 12 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री रवि सिंह

(2). आज दिनांक 02.03.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की अध्यक्षता में तहसील मानिकपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में आए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अमित आसेरी, मुख्यचिकित्साधिकारी, उपजिलाधिकारी मानिकपुर, श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह, वरि0उ0नि0 थाना मारकुण्डी, चौकी प्रभारी सैरिया श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 02.03.2021 को श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ एवं एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा आदर्श इण्टर कॉलेज मानिकपुर में जागरूकता गोष्ठी आयोजित कर छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन्स नम्बरों एवं महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। इसी क्रम में एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में भ्रमण कर, प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप एवं एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा भरतपुर के भरतमंदिर पब्लिक स्कूल में जागरूकता गोष्ठी के माध्यम से, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा जे0एम0 इण्टर कॉलेज कर्वी, सीआईसी इण्टर कॉलेज कर्वी में जागरूकता गोष्ठी के माध्यम से, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम कुटी में, एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा ट्राफिक चौराहा पर भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम हरदीकलां में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्कूल में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की

समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।